



IndiaMART InterMESH Ltd.
6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra,
Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P.
Call Us: +91 - 9696969696
E: customercare@indiamart.com
Website: www.indiamart.com

Date: January 13, 2021

BSE Limited
(BSE: 542726)

National Stock Exchange of India Limited
(NSE: INDIAMART)

Subject: Intimation of Publication of the Notice of the Board Meeting

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published the Notice of Board Meeting scheduled to, inter-alia, consider and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.


Please find enclosed a copy of the newspaper publication, in this regard, as published in the following newspapers on January 12, 2021:

- Mint (English Language National Daily Newspaper – All India) and
- Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi).

Submitted for your information and records.

Yours faithfully,

For Indiamart InterMesh Limited


(Manoj Bhargava)

**Sr. Vice President (Legal & Secretarial),
Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: As above.

Liquidation far exceeds cos rescued under IBC

No. of liquidation orders is 3-4 times the revival plans cleared in a quarter

Gireesh Chandra Prasad
gireesh.p@livemint.com
NEW DELHI

Unviable companies liquidated under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) far outnumbered those rescued since the new bankruptcy framework came into force four years ago, indicating the challenges facing the economy.

Official data showed that almost in every quarter since January 2017, the number of businesses that were ordered to be liquidated was three to four times the companies that could find a fresh lease of life.

The highest number of liquidation orders of 155 came in the second quarter of FY20, against 33 resolution plans cleared by tribunals, data from the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) showed. In the second quarter of FY21, 68 companies faced liquidation against 22 businesses stitching together revival plans.

IBC's goal is to salvage the maximum number of distressed firms, which experts said has helped, but the number of liquidation orders still remains high.

"The number of companies sent for liquidation could have been even higher but for the opportunities being given by the National Company Law Tribunal (NCLT) beyond 330 days to explore revival as is the ultimate goal of the IBC. The problem is that it will only result in kicking the can down the lane unless some inherent issues are addressed. One of the main reasons for more liquidation than resolution is the disqualification under section 29A of IBC of promoters, who happen to be the most obvious propounders of a resolution plan, from taking part in the bid process. In the Indian context of family-driven businesses, promoters play a crucial role in steering the company and in their absence,



The highest number of liquidation orders of 155 came in the second quarter of FY20, against 33 resolution plans cleared by tribunals, data from IBBI showed. PRADEEP GAUR

the corporate debtor is left to fend for itself," said Sumant Batra, managing partner of the law firm Kesar Dass B. and Associates.

IBC disqualifies promoters of defaulting companies from placing bids unless they pay up all overdue amounts. The idea is to check promoters from winning the com-

pany back at a discounted price while lenders take a haircut.

Inadequate number of buyers and the inability of businesses to remain viable are among reasons for the higher liquidation number, said Shardul Shroff, executive chairman, Shardul Amarchand Mangaldas and Co., a law firm. "The pre-pack scheme currently under discussions will help in

reducing the number of liquidation orders. Also, the government could explore solutions like setting up a fund to support micro, small and medium enterprises in the resolution process," said Shroff.

Besides, the absence of a matured distressed asset market, lack of freedom for resolution professionals to proactively reach out to potential investors and stitch together a plan, general delays in attaining bid closure, the overall economic conditions including of tight liquidity and lenders' overly defensive approach in taking a haircut are reasons for the high number of businesses going into liquidation, explained Batra.

India's economy has been on a downward spin since the January-March period of 2018 when it expanded by 8.2%. As per official estimates, the economy is projected to contract by a record 7.7% in FY21 for the first time in 41 years with the services sector affected the worst by the coronavirus pandemic.

reducing the number of liquidation orders. Also, the government could explore solutions like setting up a fund to support micro, small and medium enterprises in the resolution process," said Shroff.

Besides, the absence of a matured distressed asset market, lack of freedom for resolution professionals to proactively reach out to potential investors and stitch together a plan, general delays in attaining bid closure, the overall economic conditions including of tight liquidity and lenders' overly defensive approach in taking a haircut are reasons for the high number of businesses going into liquidation, explained Batra.

India's economy has been on a downward spin since the January-March period of 2018 when it expanded by 8.2%. As per official estimates, the economy is projected to contract by a record 7.7% in FY21 for the first time in 41 years with the services sector affected the worst by the coronavirus pandemic.

India's economy has been on a downward spin since the January-March period of 2018 when it expanded by 8.2%. As per official estimates, the economy is projected to contract by a record 7.7% in FY21 for the first time in 41 years with the services sector affected the worst by the coronavirus pandemic.

10 trade unions to skip today's meet with government on labour codes

Prashant K. Nanda
prashant.n@livemint.com
NEW DELHI

Ten central trade unions on Monday said they have decided not to virtually meet Union labour ministry authorities to discuss the labour code rules being framed.

The trade unions said the tripartite (government, and employees' and employers' representatives) consultations must take place in a physical mode as the ministry is functioning fully. They said it showed that the government was not serious about it.

"Instead of taking our objections seriously, the government is trying to create a farce of tripartite consultations by setting up this kind of video conference when we know that physical meetings of the government are taking place at various levels, including negotiations with farmers and the election preparation rallies in various states," the 10 trade unions said in a joint statement.

"We reiterate our stand and insist on physical meetings to discuss the draft rules. Till such time, we are constrained to dissociate ourselves from this exercise, which serves no purpose other than to create a semblance of tripartism. We shall not attend the proposed video conference," they said



The trade unions have demanded that the tripartite consultations must take place in a physical meeting. MINT

in a separate joint letter to Union labour minister Santosh Gangwar. Mint has seen a copy of the letter.

The Union labour ministry has called a meeting via video conference with central trade unions on 12 January, after a failed attempt in December, to discuss the framing of rules on the Code on Social Security, and Code on Occupational Health and Safety and Working Conditions. The unions believe that the move is aimed at keeping them silent if they oppose any provision whenever they wish by switching them off.

"The government has failed to take cognizance of our previous letter on 22 December demanding physical meetings for discussion on such a seri-

ous matter that would have a long-lasting adverse impact on the lives of...crores workforce of our country and the negation of collective bargaining as a core fundamental right of workers," the unions said in the joint statement.

"One can understand if along with the physical meeting a few of those who find it difficult to travel because of special circumstances could be provided online facility also. But to deny holding the serious exercise through physical meetings smells of a wilful anti-labour stance on the part of the government," the Unions alleged in their statement.

The government is open to tripartite consultations and want trade unions to join via video conference, but may formally comment on the trade union issue on Tuesday, a labour ministry official said. The Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) is likely to join the meeting, said the official on condition of anonymity. BMS is an affiliate of the Rashtriya Swamsevak Sangh, the ideological parent of ruling Bharatiya Janata Party.

The 10 unions that have rejected to meet include the All India Trade Union Congress, the Hind Mazdoor Sabha, the Centre for Indian Trade Unions, and the Indian National Trade Union Congress.



GAIL to consider share buyback, dividend on Friday
bit.ly/38wiRNx

Sterlite Power raises ₹200 cr from Allianz GI

Tanya Thomas
tanya.t@livemint.com
MUMBAI

Sterlite Power has raised ₹200 crore in debt financing from Allianz Global Investors (Allianz GI), a global investment manager focussing on sustainable investments.

The transaction is among the first infrastructure sector financing deals for Allianz GI in India.

Sterlite Power raised the funds through a three-year non-convertible debenture.

The fund-raise is part of a larger refinancing exercise of the private power transmission infrastructure developer to reduce its holding company borrowings.

"This transaction with Allianz GI is a strong validation of the continued trust reposed on us by the banking and investor community, and the rise of power transmission as an asset class with promising returns," said Pratik Agarwal, managing director, Sterlite Power. "We remain focused on our

endeavour towards greening the grid by delivering some of the most challenging and impactful transmission projects in the country".

Last month, the company announced a 50:50 joint venture with global investment manager AMP Capital to build four transmission projects in the country.

AMP Capital and Sterlite Power will invest \$150 million each to develop 1,800km of transmission lines.

Goldman, Citi and JPMorgan to pause political donations

Bloomberg
feedback@livemint.com

Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. and JPMorgan Chase & Co. plan to pause all political contributions, joining a growing list of companies changing or reviewing their donation policies in the aftermath of riots at the Capitol in the past week.

Goldman is still formulating its measures that will probably curtail future political giving to the elected leaders who fought to overturn the 2020 result. A representative for the firm confirmed the plan.

JPMorgan, the largest US bank by assets, said it is planning a six-month suspension to both Republicans and Democrats. Citigroup said it intends to temporarily stop all political contributions in the current quarter.

"We want you to be assured that we will not support candidates who do not respect the rule of law," Candi Wolff, Citi's head of global government affairs, said in a memo to employees.

The action from the banks followed an earlier announcement from Marriott International Inc., which said it will suspend donations to Republican senators who voted against certifying President-elect Joe Biden, after considering the "destructive events" on Wednesday.

The hotel giant was among the first corporate donors to announce the severing of financial ties with the lawmakers following the Capitol Hill riot by supporters of President Donald Trump. While much of corporate America swiftly condemned the violence, few



Riots at the Capitol prompted the banks' decision. REUTERS

companies have publicly vowed to cut off financial support to the elected officials who backed Trump's baseless claims of election fraud.

"We have taken the destructive events at the Capitol to undermine a legitimate and fair election into consideration and will be pausing political giving from our Political Action Committee to those who voted against certification

of the election," a Marriott spokesperson said.

The event in the past week has triggered a backlash on politicians including Missouri senator Josh Hawley, who supported the

fraud claims and was seen saluting protesters with a fist pump before they stormed the Capitol.

Citi's Wolff said the bank gave \$1,000 to his 2019 campaign, adding he represents a state where it has a sizeable employee presence.

Morgan Stanley also joined its competitors, with pointed scrutiny on all members of Congress who didn't vote to certify Biden's win by pausing its contributions to them. A Morgan Stanley spokesman confirmed the firm's plan.

STOP CORONA
WASH YOUR HAND, WEAR MASK & MAINTAIN SOCIAL DISTANCE

DELHI JAL BOARD: DELHI SARKAR
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (T)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

Applications were invited from the eligible officers in leading newspaper on 08th January, 2021 for filling up the post of Member (Drainage) in Delhi Jal Board on deputation basis initially for a period of one year in the Pay Band of Rs. 37,400-67,000 with a grade pay of Rs. 10,000/- (Pre-revised)/Level-14 under 7th Central Pay Commission, within 45 days from the date of this advertisement to the Member (Administration), Delhi Jal Board. Due to some administrative reasons, the advertisement published in leading newspapers on 08th January, 2021 may be treated as **withdrawn/cancelled** with immediate effect.

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Adv. No. J.S.V. 306 (2020-21)

(VILAS RAMPAL)
ASSISTANT COMMISSIONER (T)

HIL (INDIA) LIMITED
(Formerly KNOWN AS HINDUSTAN INSECTICIDES LTD)
(A Govt. of India Enterprise), (An ISO 9001:2008 Certified Company)
SCOPE Complex, Core-6, 2nd Floor, 7 Lodi Road, New Delhi-110003,
Phone No. : 011-24361019, Fax No. : 91-11-24362116
Website: www.hil.gov.in

HIL (India) Limited invites applications for the post of **Finance Manager, Assistant Marketing Manager & Company Secretary on "Regular" basis and Assistant Manager (Rajbhasha), Officer (Rajbhasha) & Assistant Manager (Finance) on "Fixed Tenure" Basis** for different locations. For detailed information, please visit our website www.hil.gov.in. Any amendments/corrigendum concerning this notification shall be updated on Company website only.

General Manager (HR & Admn.)

indiamart
INDIAMART INTERMESH LIMITED

REGD OFFICE: 1st Floor, 29 - Daryaganj, Netaji Subash Marg, New Delhi - 110002
Tel: (+91) (11) 49956500
Email: cs@indiamart.com, Website: www.indiamart.com
CIN: L74899DL1999PLC101534

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, January 18, 2021, inter-alia to consider and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

This notice can be accessed on Company's website www.indiamart.com and also on the portals of respective stock exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Indiamart InterMESH Limited Sd/-
Manoj Bhargava
Senior Vice President (Legal & Secretarial),
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Delhi
Dated : 11-01-2021

NOIDA New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida G B Nagar, (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited eligible contractors / firm for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened / downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website : www.noidaauthorityonline.com & <https://etender.up.nic.in>. Please ensure to see these websites for any changes / amendments & corrigendum etc.

Fresh-Tender Work

A) The above tenders can be uploaded by dated **25.01.2021** upto **5.00 PM**. Shall be opened / downloaded on dated **27.01.2021 at 11.00 AM**.

S. N.	Job No.	Name of Work	Tender Amount (Rs. Lacs)
1.	65/CGM/SM (E/M)-I/ET/2021-21	External Electrification & Development of Institution Area Block A, B & C in sector-145, Noida.	589.52

Chief General Manager
Noida

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Regd. Off: - NICDC, Tower-1, 08th Floor, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi - 110 001, Tel No: 011-23317884-8

NICDC Ltd. invites applications for the following post:

I. Senior Manager (Infrastructure Development)

Interested candidates are requested to apply online on NICDC website i.e. www.nicdc.in (Careers> Current Opening> Apply Online) on or before **27 January, 2021 by 17:00 HRS.** No other mode of application like manual/paper shall be accepted/entertained.



Growth is not just about chasing success. It's also about learning from failures.

Growth is...On.



Follow us:

[mint.live](https://www.facebook.com/mint.live) [livemint](https://www.instagram.com/livemint) [live_mint](https://www.youtube.com/live_mint) [livemint](https://www.linkedin.com/company/livemint) www.livemint.com

डा. आर्थो
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

घुटने दर्द, कंधे दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द एवं कराई दर्द में सहायक आयुर्वेदिक औषधि

8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. आर्थो तेल जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें। परिणाम पहले दिन से दिखेगा।

अब दर्द भी घुटने टकेगा...

डा. आर्वा पूरा नाम प्यार का ही खतिये।

2018 Register: 1808177777 | www.doarwa.com | Facebook & Instagram @doarwa & healing doctor

महामारी का बेहतर ढंग से मुकाबला कर पा रहे युवा नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अगले साल गणतंत्र परेड

राष्ट्रीय युवा दिवस आज

कोविड महामारी के युवाओं की सुरक्षा के लिए युवा अकादमी को भी, पर आज के प्रस्ताव अनुसार युवा से सुरक्षा कायम रहे। युवाओं के एक अकादमी पर काम चल रहा है। अकादमी के युवाओं को युवा से युवा तक फैले के बाद प्रत्येक युवागत काम युवाओं के लिए अकादमी को है।



पहले से ज्यादा डिजिटल युवा

50 प्रतिशत से ज्यादा के युवा डिजिटल युवा हैं। डिजिटल युवा हैं।

81 प्रतिशत के युवा डिजिटल युवा हैं। डिजिटल युवा हैं।

30 प्रतिशत युवा डिजिटल युवा हैं। डिजिटल युवा हैं।

ड्रम युवाओं को से पाठ पाया

अकादमी - माफुक हुए

एच स्टार लोरी काली

अकादमी को से पाठ पाया

क्या कहें सबसे उलझता

अकादमी को से पाठ पाया

कैलाश

अकादमी को से पाठ पाया



सीरम इंस्टीट्यूट को 1.1 करोड़ स्यूक का ऑर्डर, टीका भेजने की प्रक्रिया शुरू होने का सस्ता साफ हुआ केंद्र को 210 रुपये में मिलेगा कोविड टीका

टीकाकरण का दिन

अकादमी को से पाठ पाया



कैलाश

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

विशेषज्ञ बुलान में कोविड स्मॉट का पता लगाने जाएंगे

अकादमी को से पाठ पाया

लगातार बढ़ रही भारतीय वैक्सीन की मांग

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

अकादमी को से पाठ पाया

ब्रिटेन: हर 50 में से एक व्यक्ति को संक्रमण

अकादमी को से पाठ पाया

हिन्दुस्तान नियुक्तियां

राइट्स लिमिटेड

अकादमी को से पाठ पाया

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरपोरेट डेवलपमेंट

अकादमी को से पाठ पाया

भारत सरकार लोक उद्यम चयन बोर्ड

अकादमी को से पाठ पाया

दक्षिण कोरिया में टीका मुफ्त

अकादमी को से पाठ पाया

हिंदुस्तान लिमिटेड

अकादमी को से पाठ पाया

भारत सरकार लोक उद्यम चयन बोर्ड

अकादमी को से पाठ पाया

Pepsodent

अकादमी को से पाठ पाया